

**Business Standard**  
MUMBAI EDITION

Printed and Published by Sangita Kheora on behalf of Business Standard Private Limited and Printed at M/s. Dangat Media Private Limited, 22 Digha M.I.D.C., TTC Industrial Area, Vishnu Nagar, Digha, Navi Mumbai, 400708 and M/s. Nai Dunia 23/4, 23/5, Sector-D, Industrial Area, J.K. Road, Near Minal Residency, Bhopal (M.P.)-462023. & Published at H/4 & I/3, Building H, Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai-400013

Editor : Shyamal Majumdar

RNI No: 66308/1996

Readers should write their feedback at [feedback@bsmail.in](mailto:feedback@bsmail.in)  
Fax : +91-11-23720201

For Subscription and Circulation enquiries please contact:  
**Ms. Mansi Singh**  
Head-Customer Relations  
Business Standard Private Limited,  
H/4 & I/3, Building H, Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400013  
E-mail: [subs\\_bs@bsmail.in](mailto:subs_bs@bsmail.in)  
\*or sms, REACHBS TO 57575

Overseas subscription: (Mumbai Edition Only)

One year subscription rate by air mail INR 51765 : USD 725

**DISCLAIMER** News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement. Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned. Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction, transmission or dissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and criminal liabilities.

**No Air Surcharge**

**SIL INVESTMENTS LIMITED**  
CIN : L17301RJ1934PLC002761  
Regd. Office : Pachpahar Road, Bhawanimandi-326502 (Rajasthan) Tel. No.: 07433-222082; Email: [complianceofficer@silinvestments.in](mailto:complianceofficer@silinvestments.in); Website : [www.silinvestments.in](http://www.silinvestments.in)

**EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH, 2021**  
(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	3 Months Ended	Preceding 3 Months Ended	Corresponding 3 Months Ended in the Previous Year	Year Ended	Previous Accounting Year Ended
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	Total Income from Operations	296	1421	1841	2844	3881
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	9	1685	1582	2685	4012
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	9	1685	1582	2685	4012
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(187)	1419	1524	2064	3556
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1993	27766	(24291)	53624	(27324)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- per share)	1061	1061	1061	1061	1061
7	Earnings Per Share before / after extraordinary items (of ₹ 10/- each) (not annualised) (Rs.)					
	a) Basic :	(1.80)	13.36	14.32	19.15	33.22
	b) Diluted :	(1.80)	13.36	14.32	19.15	33.22

**Key information on Standalone Financial Results**  
(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	3 Months Ended	Preceding 3 Months Ended	Corresponding 3 Months Ended in the Previous Year	Year Ended	Previous Accounting Year Ended
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	Total Income from Operations	222	1282	1651	2334	3364
2	Profit Before Tax	(31)	1564	1441	2270	3539
3	Profit After Tax	(210)	1348	1433	1729	3150
4	Total Comprehensive Income	495	24024	(17868)	44196	(21177)

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation-33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial results for The Quarter and Year ended 31<sup>st</sup> March, 2021 are available on website of the Stock Exchanges ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com); [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and the Company's website ([www.silinvestments.in](http://www.silinvestments.in)).
- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 12<sup>th</sup> May, 2021.

By Order of the Board  
**For SIL Investments Limited**  
(Brij Mohan Agarwal)  
Director-in-Charge

Place : Kolkata  
Date : 12<sup>th</sup> May, 2021

**KEC**  
**KEC INTERNATIONAL LIMITED**  
CIN - L45200MH2005PLC152061  
Registered Office : RPG House, 463, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 030  
Tel No: 022-66670200, Fax No.: 022-66670287, Email: [investorpoint@kecrgp.com](mailto:investorpoint@kecrgp.com)  
Extract of Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2021  
Rs. in Crore

Particulars	Quarter ended		Year Ended	
	March 31, 2021	March 31, 2020	March 31, 2021	March 31, 2020
	(Refer note 3)	(Refer note 3)	(Audited)	(Audited)
1 Revenue from operations	4360.54	3671.00	13114.20	11965.37
2 Net Profit for the period (before tax)	265.66	269.05	755.91	790.27
3 Net Profit for the period (after tax and after exceptional items)	194.30	192.88	552.72	565.52
4 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	188.05	158.14	562.11	551.33
5 Paid-up equity share capital (face value Rs. 2/- each)	51.42	51.42	51.42	51.42
6 Other Equity			3308.27	2746.16
7 Basic / Diluted Earnings Per Share (in Rupees) attributable to owners (not annualised) (face value Rs. 2/- each)	7.56	7.50	21.50	22.00
- before and after extraordinary items (not annualised)				

**Notes :**

- The above results of KEC International Limited, its branches, jointly controlled operations (the 'Company') and its Subsidiaries (together referred to as 'Group') were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on May 10, 2021 and May 11, 2021 respectively. The statutory auditors of the Company have conducted the audit of the above Consolidated Financial Results for the year ended March 31, 2021.
- Information of Standalone Financial Results of the Company is as under: -  
Rs. in Crore

Particulars	Quarter ended		Year Ended	
	March 31, 2021	March 31, 2020	March 31, 2021	March 31, 2020
	(Refer note 3)	(Refer note 3)	(Audited)	(Audited)
Revenue from operations	4101.24	3241.06	11851.79	10470.62
Profit before tax	328.29	246.15	896.62	745.28
Profit after tax	230.43	181.53	646.09	545.73

3 The figures for the quarters ended March 31, 2021 and March 31, 2020 are balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended on March 31, 2021 and March 31, 2020 and the unaudited published year to date figures up to third quarters ended on December 31, 2020 and December 31, 2019 respectively, which were subjected to Limited review by the Statutory Auditors.

4 The above is an extract of the detailed format of Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of Standalone and Consolidated Financial Results are available on the stock exchanges websites, i.e., [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website i.e. [www.kecrgp.com](http://www.kecrgp.com)

For KEC INTERNATIONAL LIMITED  
Sd/-  
**VIMAL KEJRIWAL**  
MANAGING DIRECTOR & CEO  
DIN - 00026981

Place : Mumbai  
Date : May 11, 2021

Visit us at [www.kecrgp.com](http://www.kecrgp.com)  
**RPG**

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**  
Statutory Body under an Act of Parliament

**BOARD OF ADVANCED STUDIES & RESEARCH**  
**Introduces**  
**DIPLOMA COURSE IN INFORMATION SYSTEM SECURITY AUDIT (DISSA)**

The Board of Advanced Studies & Research of The Institute of Cost Accountants of India has introduced an exciting and practical oriented professional course on Diploma in Information System Security Audit (DISSA). In this connection it has organized a National Level Webinar on the theme "Future of Information System Security Audit" on 25th April 2021 in presence its members and students.

The Chief Guest of this virtual seminar was CMA P. Vasudevan, Chief General Manager of Reserve Bank of India. He stressed upon the importance of this Course in today's context and congratulated the Institute for introducing such a course with rich curriculum for its members and students and hoped this Course will get its due recognition shortly. CMA Biswarup Basu, President of the Institute said this is a welcome move of Board of Advanced Studies & Research and it will give immense boost up in CMA profession. CMA Debasish Mitra, Chairman, Board of Advanced Studies & Research and Members in Industry Committee offered the welcome address and described the utility of DISSA Course with a relevant case study. CMAP Raju Iyer, Vice President of the Institute, CMA Balwinder Singh, Chairman, T & EF and Placement Committee and CMA Chittaranjan Chattopadhyay, Chairman, BFSI Committee also delivered their special addresses during the inaugural session.

**Technical Session**  
**Cyber Security Framework – Adoption and Practice**  
**Subhojit Roy, Sr. Vice President & Chief Information Officer, SBI Funds Management**

For all organizations, especially in BFSI industry, information security, including cyber security and data privacy/ security, has become extremely critical and complex with increased threat landscape. An IS Auditor needs to understand the overall information security posture of the organization along with the stated policies, risk management practices, governance structure, regulations and also, he/she should have good understandings of major info sec domains.

In order to better address various risks, an organization should have a cyber security framework in place, focusing on business drivers and considering cyber security risks as part of the organization's risk management processes. A Framework is a tool for aligning policy, business, and technological approaches for managing cyber security risks and it can be used to help identify, assess and manage cyber security risk.

While a cyber security framework has three major components (Core, Implementation Tiers & Profiles), the Core comprises five major functions: Identify, Protect, Detect, Respond and Recover. An organization should apply the Framework throughout the life cycle phases of critical systems. It can serve as the foundation for a new cyber security program or a mechanism for improving an existing program.

**Changing Global Threat & Opportunity Landscape: Implications for the future of Information Security**  
**Dr. Sanjoy Sen, Head of Research & Eminence, Extended Enterprise Risk Management, Risk Advisory, Deloitte LLP**

While COVID-19 has reinforced the need to invest in good governance and risk management the optimum state of cyber and information security however will remain a moving target alongside the rapidly-changing threat landscape. Information security specialists need to put themselves in the shoes of the perpetrators of cyber-crime to gain a full understanding of their modus operandi relevant to their organisations, focusing on those threats that can cause more widespread damage or disruption due to increasing sophistication of the attacker and longer time to detect and respond to the same. At the same time, cyber and information risk management should be seen as an opportunity, helping organisations to gain competitive advantage by addressing these issues better than their competitors. As a result, there is a business case for repositioning this at higher levels of the organisation with Board and executive leadership support and sponsorship, particularly within the more regulated sectors such as financial services which resilience, business continuity and third-party risks continue to get greater focus and attention from regulators post COVID-19. Organisations must leverage the strategic transformation agenda in their organisations to embed standardised information security controls across the depth and breadth of their organisations, enabled by digitisation and dominance of SAP as a foundation platform, to respond to the emerging threats on a real-time basis.

**Digital Framework & Cloud computing**  
**CA Johar Batterywala, Subject matter expert, Deloitte Haskins & Sells**

Johar Batterywala talked about the acceleration which is happening across industries around digital adoption.

Organizations need to adopt a more holistic digital risk framework to address the associated risks and the role which CMAs can play in overall implementation lifecycle, besides the key role which they play around independent assurance. He also shed some light on comprehensive IT risk assessment which is required to be carried out to include & address all the relevant IT elements and underlying processes including the overall governance piece. He also talked about various models which companies are using around cloud adoption (i.e. IaaS, PaaS & SaaS), associated risks in cloud adoption and how organizations can manage these risks.

**Artificial Intelligence, Cloud Computing & Future of IS Audit**  
**CA Arjitt Chakraborty, Management Consultant**

The contemporary business world has migrated to virtual, electronic and digital mode. In this COVID 2.0 era, as businesses augment their Information Technology capabilities, the critical success factor lies in timely evaluation and assessment of IS Security risks and their mitigation. Moreover, Blockchain models and Cloud Computing require secure network and strong perimeter security. The focus clearly is on data quality, integrity, availability and no data breach or compromise can be accepted. CMAs with this brand new DISSA Certification will play a vital role in engaging with corporates, regulators, government, banks and insurance sector in addressing the need for audit of all their Information Technology systems, network architecture, IS protocols and Policies. This will enhance the corporate risk management system and provide great value-add to the Board and those charged with governance. The advent of newer version of ERP Systems (SAP R/4 HANA for example), Artificial Intelligence , RPA, Chatbots in almost all industry verticals have also necessitated the enforcement of robust IS Controls and IS Threat hygiene culminating in mitigation of all IS Security risks. CMA s armed with DISSA qualification will be the enabler of the future IT enabled organisations as auditor, advisor, mentor and consultants in all aspects of e-governance. "

**DISSA Course: An Overview**  
**CMA (Dr.) P. Siva Rama Prasad, AGM, SBI (Retd.)**

He discussed about the importance of 'IS Audit' in Today's Business environment, objective of introduced the DISSA Course by the Institute and also various Opportunities that are available to the Professionals in Financial Sector etc. He also discussed the Importance of 'Cloud Computing Management Audit' to the Business Organizations. Worldwide, Business Organizations are moving towards Cloud Computing, at this point the Security Features, Compliance Management, Integrity of Data, Business Continuity Plan etc. are to be checked by the 'Cloud Computing Management Auditor' before shifting the 'IT Function' to Cloud.

**Professional Courses offered by the Board of Advanced Studies & Research**

Certificate Course in Data Analytics	SAP Finance Power User Course (SAP Learning Hub & SAP S/4HANA)	Certificate Course in Advanced Business Excel for Finance Professionals (with Microsoft Certification)	Diploma in Information System Security Audit	Diploma in Management Accountancy (For CMA Members Only)	Executive Diploma in Cost & Management Accounting for Engineers	Certificate Course in Arbitration	Executive Diploma in Business Valuation
--------------------------------------	--	--	--	--	---	-----------------------------------	---

Behind every successful business decision, there is always a CMA | — Advertorial

**INDUSTRY AND ACADEMIC DIASPORA OF U.K. CONNECT WITH THE INDIAN COUNTERPARTS AT UK – INDIA LIVING BRIDGE**

**London Overseas Centre of Cost Accountants (LOCCA) organised its first international webinar UK-India Living Bridge on 23rd April 2021 in association with the Government of UK, UKIBC, IBG and supported by FOSMI-Bengal, SME Chamber of India and PBF Kolkata who represented Indian MSMEs.**

LOCCA Chairman CMA Anirban Mukhopadhyay said it was the beginning of a journey where MSME sectors in India would get to connect with UK MSMEs. Similar sentiments were reiterated by President CMA Biswarup Basu and Vice-President CMA Raju Iyer along with the future IT enabled organisations as auditor, advisor, mentor and consultants in all aspects of e-governance. "

FOSMI President Mr. Biswanath Bhattacharya touched upon sectoral opportunities in Bengal wherein Mr. Anub Basu of PBF talked about skill requirements in the VUCA world. Founder President of SME Chamber Mr. Chandrakant Salunke spoke about EDP and facilitation of bank loans to SMEs. British Deputy High Commissioner of Kolkata Mr. Nick Low gave insights of the impending UK-India trade partnership and upcoming world-class vaccine industry in UK. Mr. Kevin McCole M.D. of UKIBC talked about UK SMEs with advanced technologies looking to support make-in-India initiatives.

Lord Howard Leigh, Chairman of Cavendish Corporate Finance and Lord John Bird spoke about the security-and-investment bill and skill-based education for young generation. Mr. Daniele Petriello of UK Home Office presented the new points-based immigration system for students and professionals.

The event also saw eminent speakers from Scottish Development International, DIT, E2E (UK deal maker) and renowned professors from Universities of Southampton and Nottingham. LOCCA Secretary CMA Udayan Guha deftly conducted the webinar.

**CMA COURSE GOING GLOBAL**  
Skills Training Partners

--	--	--

